



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

12 पौष 1934 (श0)  
(सं0 पटना 2) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

5 सितम्बर 2012

सं0 22/नि0सि0(सिवान0)—11—21/2011/958—श्री जर्नादन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सारण नहर प्रमण्डल, सिवान के द्वारा सारण तटबंध के 142.70 कि0मी0 से 152.00 कि0मी0 के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद से हटकर राजस्थानी ट्रैक्टर से कराये जाने तथा इसका भुगतान एकरारित कार्यमद के अनुरूप ड्रेजिंग मशीन की दर से किये जाने के फलस्वरूप अनियमित भुगतान हुआ। उक्त अनियमित भुगतान के फलस्वरूप सरकार के राजकोष की क्षति हुई। उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0—1348 दिनांक 3.11.11 द्वारा श्री प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1437 दिनांक 22.11.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

श्री प्रसाद निलंबित कार्यपालक अभियन्ता के विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पूर्व श्री प्रसाद दिनांक 30.6.12 को सेवानिवृत्त हो गये। फलतः श्री प्रसाद निलंबित कार्यपालक अभियन्ता को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30.6.12 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्पूरित करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री जर्नादन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30.6.12 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार

पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है। उक्त आदेश श्री जर्नादन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
भरत झा,  
सरकार के उप-सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 2-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>